

## झुंझुनूं / कलर प्रिंटर से छापे 50-50 रु. के नकली नोट, तीन गिरफ्तार



- झुंझुनूं के नवलगढ़ पुलिस की कार्रवाई, पकड़े गए तीनों युवक 20 से 25 की उम्र के  
*Dainik Bhaskar*  
Jan 12, 2020, 03:46 AM IST

**नवलगढ़ (झुंझुनूं).** नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहे तीन युवकों के नवलगढ़ पुलिस ने शनिवार को पकड़ा है। तीनों युवक उदयपुरवाटी क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 50-50 रुपए के 80 नोट बरामद किए हैं। बालेरा भी जब्त की गई है। आरोपियों ने कलर प्रिंट से स्कैन करके नकली नोट छापे हैं। पकड़े युवकों की उम्र 22 से 25 साल के बीच है।

एसआई महावीर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बे में झाझड़ रोड पर अशोक धर्मकांटा के पास बगैर नंबरों की बालेरा संदिग्ध खड़ी है। उसमें बैठे युवक संदिग्ध नजर आ रहे हैं। सूचना पर हैडकांस्टेबल महेंद्र कुमार माँके पर पहुंचे। पुलिस ने बालेरा के पास खड़े धेलाखेड़ा (उदयपुरवाटी) निवासी धर्मेन्द्र स्वामी (22) पुत्र शीशराम स्वामी व बालेरा में बैठे दिनेश जाट (25) पुत्र इंद्राज सिंह तथा इंद्रपुरा निवासी सुरेश कुमावत (25) पुत्र राधेश्याम कुमावत से पूछताछ की आरोपी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास 50-50 रुपए के 80 नकली नोट मिले।

पुलिस ने बताया कि धर्मेन्द्र के पास 50 के 35 नोट, दिनेश के पास 25 तथा सुरेश के पास 20 नकली नोट मिले। इस पर पुलिस आरोपियों को पकड़ कर थाने ले आई। पुलिस ने बालेरा भी जब्त कर ली। आरोपियों के पास 50-50 के 80 नोट यानी 4 हजार रुपए के नकली नोट मिले हैं। पुलिस इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ नकली नोट चलाने की धारा में मामला दर्ज किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

### आरोपियों ने एक ही नंबर के छाप दिए नोट

आरोपियों ने नकली नोट छापने में भी बड़ी चूक कर दी है। पुलिस ने 50-50 रुपए के जो नोट जब्त किए हैं, उन सभी नोट के एक ही नंबर है। पुलिस को जब 50-50 के नोट मिले तो पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने नंबरों का मिलान किया तो सभी के एक ही नंबर मिले। सीआई महावीरसिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस इस जांच में जुट गई कि आरोपी अब तक कितने नोट छाप चुके हैं, क्या अभी तक सिर्फ 50-50 के नोट ही छापे हैं या 100, 500 व 2000 के भी नोट छापे हैं। नकली नोट कहां-कहां पर चलाए, इस बारे में पुलिस जांच में जुटी हुई है।